

Annexure C

PROFORMA FOR SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No D-2363/HD/MSA

Dated: 16/04/2024

It is certified that an inspection team headed by Nagar Swasthya Adhikari

(Name of Officers with designation) from Nagar Nigam Lucknow PHED

inspected the Rameshwaram International Academy, Govindpuram, Sitapur Road Uco.


(Name & Address of the school) on 16/04/2024 (date of inspection) and on the basis of

Water Test Report (Attached) bearing no. 07/D-238, D-239, D-240 dated 12/04/2024

of (PHED Lab) certified that the

Rameshwaram International Academy (Name of school) has safe drinking water facilities for the students and members of staff of the institution. School is also maintains the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per norms prescribed by the Central/ State/ U.T. Govt.

This certificate is valid till 03 years

Signature with Seal: 
Name: Nagar Swasthya Adhikari
Designation: Nagar Nigam Lucknow
Name & Address of the Office / Department: Nagar Nigam Lucknow

To Rameshwaram International Academy
Govindpuram, Sitapur Road, Lucknow
(Name & Address of the Institution)

Note: The certificate is to be issued by authorized officer / PHED Lab / local bodies

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०

सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

प्रधानाचार्य, रामेश्वर इंटरनेशनल एकेडमी, गोविन्दपुरम् सीतापुर रोड लखनऊ से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम


द्वारा एकत्रित/द्वारा भेजा गया	श्री अमित दूबे
एकत्र करने का दिनांक	05-04-2024
प्राप्त होने का दिनांक	06-04-2024
विश्लेषण का दिनांक	08-04-2024
जल प्राप्ति का स्थान	सबमर्सिबल
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग (फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी०पी०एम०	नहीं
एल्ब्यूमिनाइड अमोनिया पी०पी०एम०	नहीं
37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जायक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब) पी०पी०एम०	नहीं
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	128.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	74.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	54.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	40.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	28.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	12.0
क्लोराईड्स पी०पी०एम०	28.0
नाईट्राइड्स पी०पी०एम०	नहीं
नाइट्रेट्स पी०पी०एम०	नहीं
फ्लोराइड पी०पी०एम०	0.2
रेजीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभ्युक्ति	पेय योग्य


संख्या 07/ D 238

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-प्रधानाचार्य, रामेश्वर इंटरनेशनल एकेडमी, गोविन्दपुरम् सीतापुर रोड लखनऊ ।
- 2-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।
- 3-नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, लखनऊ

दि. 12-4-24


वरिष्ठ लैबो टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ ।


अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ ।

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, अलीगंज, लखनऊ


प्रधानाचार्य, रामेश्वर इण्टरनेशनल एकेडमी, गोविन्दपुरम् सीतापुर रोड लखनऊ से लिये गये पानी के नमूनों की जीवाणु का परिणाम नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद- श्री अमित दूबे


क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाक्यूबेशन)	जल प्राप्ति का स्थान	Presumptive coliform count			अति संभाव्य कोलीफार्म संख्या /100 मि०ली०	मैलिक जल से (एम०पी०एन० कोलीफार्म /100 मि०ली०)	इ०एम०बी० एन० रिपोर्ट /24घंटे 37°C	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग 10 लाख में (Residual Chlorine) P.P.M.	अभ्युक्ति		
				घास पर के मण्डल लीटर पानी (Colony count on Nut. Agar)	पर्यवेक्षित परखनली में रखे गये जल की मात्रा	परखनली की संख्या							
05 / डी.	05-04-2024	06-04-2024	समरसेबल	20	28	—	0	2	1	3	—	नहीं	संतोषप्रद

सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-प्रधानाचार्य, रामेश्वर इण्टरनेशनल एकेडमी, गोविन्दपुरम् सीतापुर रोड लखनऊ ।
- 2-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।
- 3-नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम / नगर पातिका परिषद, लखनऊ ।

संख्या 239 दिनांक 12-4-2024


वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०
लखनऊ


अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०
लखनऊ